

## Lección 31: ¿Ya almorzaste?

*¿Ya almorzaste?*

क्या आपने लंच कर लिया है?

kya aapane lanch kar liya hai?

*No, todavía no he comido.*

नहीं, मैंने अभी तक नहीं खाया है।

nahin, mainne abhee tak nahin khaaya hai.

*Almorcé hace una hora.*

मैंने एक घंटे पहले दोपहर का खाना खाया था।

mainne ek ghante pahale dopahar ka khaana khaaya tha.

*¿Qué comiste?*

आपने क्या खाया?

aapane kya khaaya?

*Comí pescado.*

मैंने मछली खाई।

mainne machhalee khaee.

*¿Desayunas todos los días?*

क्या आप रोज नाश्ता करते हैं?

kya aap roj naashta karate hain?

*Sí, desayuno todos los días.*

हाँ, मैं रोज नाश्ता करता हूँ।

haan, main roj naashta karata hoon.

*Tengo hambre.*

मुझे भूख लगी है।

mujhe bhookh lagee hai.

*Estoy sediento. / Estoy sedienta.*

मुझे प्यास लग रही है।

mujhe pyaas lag rahee hai.